

**CERTIFICATE IN PRIMARY CURRICULUM  
AND INSTRUCTION (CPC)**  
**Module 2 of DPE**

**Term-End Examination**

**December, 2018**

**ES-213 : FOUNDATION IN SUBJECTS**

*Time : 3 hours*

*Maximum Weightage : 70%*

*Note : (i) All questions are compulsory.*

*(ii) All questions carry equal weightage.*

1. Explain **any four** of the following in about **150** words each :
  - (a) Characteristics of social change.
  - (b) Institutions contributing to social change.
  - (c) Factors responsible for launching of 'Quit India Movement'.
  - (d) Role of UN in International Understanding.
  - (e) Reasons for governments to promote or support research.
  - (f) Models of Economic Development.
  
2. Answer **any four** of the following questions :
  - (a) Illustrate the basic operations on Literal Numbers and Numbers with the help of examples.
  - (b) Add the algebraic expressions :  

$$a^2 - 3ab + a - 2b - 14,$$

$$3a^2 + 4ab - 5b + c \text{ and}$$

$$- 2a^2 + 4ab + 7b + 7$$

- (c) Solve the following equation :  
$$3(5a - 7) + 2(9a - 11) = 4(8a - 7)$$
- (d) What is meant by a triangle ? Explain the types of triangles.
- (e) Explain acute angle, obtuse angle and reflex angle with illustrations.
- (f) 75% of the cost of a book plus 75 paise gives the cost of the book. Determine the cost of the book.
3. Explain any four of the following :
- (a) Types of forces.
- (b) Sources of energy.
- (c) Errors in using measuring devices.
- (d) Measurement of volumes of irregular solid objects and liquids.
- (e) Separation of components of a mixture containing iron fillings and common salt.
- (f) The basic ingredients used for making soaps and detergents.
4. Write short answers on any four of the following :
- (a) Explain the different types of soil.
- (b) Define and differentiate manure and fertilizers with examples.
- (c) What are the causes of different seasons on Earth ?
- (d) What is an artificial satellite ? Write uses of these satellites in our day to day life.
- (e) Explain food chain and food web with illustrations.
- (f) What are the different types of natural resources ? Discuss.
-

**प्राथमिक पाठ्यचर्च्या एवं अनुदेशन में प्रमाण-पत्र  
( सी.पी.सी. )**

**डी.पी.ई. का मॉड्यूल 2**

**सत्रांत परीक्षा**

**दिसंबर, 2018**

**ई.एस. - 213 : विषयों में समुन्नयन**

**समय : 3 घण्टे**

**अधिकतम भारिता : 70%**

**नोट :** (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) सभी प्रश्नों की भारिता समान हैं।

**1.** निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक का उत्तर लगभग **150** शब्दों में होना चाहिए :

- (a) सामाजिक परिवर्तन के लक्षण।
- (b) सामाजिक परिवर्तन में संस्थाओं का योगदान।
- (c) 'भारत छोड़ो आंदोलन' प्रारंभ करने में जिम्मेदार कारक।
- (d) अंतर्राष्ट्रीय तालमेल में यू.एन. की भूमिका।
- (e) सरकार द्वारा अनुसंधान को बढ़ाने के कारण।
- (f) आर्थिक विकास के प्रतिदर्श।

**2.** निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (a) शाब्दिक अंक तथा अंकों में मूलभूत संक्रियाएं को उचित उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
- (b) बीजगणितीय पदों को जोड़े :  

$$a^2 - 3ab + a - 2b - 14,$$

$$3a^2 + 4ab - 5b + c$$
 और  

$$- 2a^2 + 4ab + 7b + 7$$

- (c) निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए :  
$$3(5a - 7) + 2(9a - 11) = 4(8a - 7)$$
- (d) त्रिभुज से क्या तात्पर्य है ? त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
- (e) न्यून कोण, अधिक कोण तथा प्रतिवर्त कोण को उदाहरणों के द्वारा समझाइए।
- (f) किसी पुस्तक के मूल्य के 75% में 75 पैसे और जोड़ दिए जाएँ तो पुस्तक की कीमत क्या होगी ?
3. निम्नलिखित में से किन्हीं चार की व्याख्या कीजिए :
- (a) बलों के प्रकार।
- (b) ऊर्जा के स्रोत।
- (c) मापन उपकरण के प्रयोग में त्रुटियाँ।
- (d) अनियमित ठोस वस्तुओं और द्रव के आयतन का मापन।
- (e) एक मिश्रण में से घटकों को पृथक करना जिसमें लोहे का बुरादा एवं सामान्य नमक हो।
- (f) साबुन और डिटर्जेंट के बनाने में प्रयोग होने वाले सामान्य अवयव।
4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए :
- (a) मृदा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
- (b) खाद और उर्वरक को परिभाषित कर अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
- (c) पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं के होने के क्या कारण हैं ?
- (d) एक कृत्रिम उपग्रह क्या है ? दैनिक जीवन में इन उपग्रहों का क्या उपयोग है ?
- (e) खाद्य शृंखला तथा खाद्य जाल की व्याख्या उदाहरणों के द्वारा कीजिए।
- (f) प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न प्रकार क्या हैं ? चर्चा कीजिए।
-